High Street Filatex Limited

REGD OFFICE: B-17, IIND FLOOR, 22 GODAM INDUSTRIAL AREA, JAIPUR-302006, INDIA Tel No: 0141-2214074,

Web Site: www.highstreetfilatex.in

E-mail: highstreet.filatex@gmail.com

CIN: L18101RJ1994PLC008386

Date: October 31, 2020

To, BSE LIMITED PHIROZE JEEJEEBHOY TOWERS, DALAL STREET, MUMBAI- 400 001 (MAHARASHTRA)

Sub:

Newspaper Advertisement-Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

Ref:

High Street Filatex Limited, Scrip Code: 531301

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing the financials published in newspaper Financial Express (English) and Dainik Amrit India (Hindi) on October 31, 2020. The same has been made available on the Company's website http://www.highstreetfilatex.in.

You are requested to kindly take the same on record.

JAIPUR

Thanking You,

Yours Sincerely,

For High Street Filatex Limited

Vibhor Kumawat

(Company Secretary and Compliance Officer)

ACS-55710

Encl: A/a

(320.08)

(1.63)

(1.63)

By the Order of the Board

(3.17)

(3.17)

Tel No: 0141-2214074, 4025431 FACTORY: F-86 HIRAWALA INDUSTRIAL AREA, KANOTA, DISTT. JAIPUR-303012, RAJASTHAN Web Site: www.highstreetfilatex.in E-mail: highstreet.filatex@gmail.com CIN: L18101RJ1994PLC008386

EXTRACTS OF THE STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020 Half Year Quarter Particulars Quarter No. Ended Ended Ended 30.09.20 30.09.20 30.09.19 Un-Audited) Un-Audited Un-Audited) 1.58 12.29 Total Income from operations 1.58 (20.53)Net Profit / (Loss) for the period (4.32)(10.57)(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) Net Profit /(Loss) for the period before (4.32)(10.57)(20.53)tax (after Exceptional and/or

Extraordinary items# (10.57)(20.53)Net Profit / (Loss) for the period after (4.32)tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) Total Comprehensive Income for the (4.32)(10.57)(20.53)period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)] Equity Share Capital 64.70 64.70 64.70

Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/-each) (for continuing and discontinued operations) Basic (0.67)

Diluted:

applicable.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter/ Half year Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) viz www.bseindia.com and the same is also available on the website of the Company viz www.highstreetfilatex.in #-Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profil and Loss in accordance with Ind-AS Rules/AS Rules, whichever is

For High Street Filatex Limited Bhagwan Singh Date: October 30, 2020 Whole-time Director Place: Jaipur DIN: 02305246

(0.67)

STATE MONEYWISE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED Registered Office: 11/6B. Shanti Chamber, 2nd Floor, Pusa Road, New Delhi -110005 CIN: U51909DL1996PTC353582, Email ID: nbfccare@smcfinance.com POSSESSION NOTICE

Notice U/s 13(4) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and

Enforcement of Security Interest Act, 2002 Read with 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Whereas, the undersigned being the authorized officer of Moneywise Financial Services

Private Limited (MFSPL), under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets

and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13(2) the Securitization and Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Hereinafter referred to as the "Act") has issued Demand Notice U/ Sec 13(2) of the Act dated 19.08.2020 ("Demand Notice") calling upon you being the "Borrowers/Guarantors/Security Provider" i.e. Mr. Vinod Kumar(Borrower), Mrs. Suman Gupta (Co-Borrower), Mr. Sushil Kumar (Guarantor) and Mrs. Anita Varshney (Guarantor), to repay the total outstanding amount mentioned in the said notice being INR. 4,48,86,515/- (Indian Rupee Four Crores Forty Eight Lakhs Eighty Six Thousand Five Hundred and Fifteen Only), payable and due as on 31.07.2020 i.e. Rs. 3,59,80,641/- (Rupees Three Crores Fifty Nine Lakhs Eighty Thousand Six Hundred and Forty One Only) in the Loan Account No. ARB001 and Rs. 89,05,874/- (Rupees Eighty Nine Lakhs Five Thousand Eight Hundred and Seventy Four Only) in the Loan Account No. ABVK001 and further interest at contractual rates on the aforesaid amount. incidental expenses, costs, charges, etc. incurred and accruing on daily basis thereafter till the date of payment and / or realization within 60 days from the date of the said notice The Borrowers/Co-Borrowers/Guarantors/ Security Provider mentioned herein above having failed to repay the amount in full as mentioned in the Demand Notice, notice is hereby given to the Borrowers/Guarantor/Security Provider mentioned hereinabove in particular and to the public in general that undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-

section 4 of section 13 of the said Act read with Rule 8 of the said Rules, on 23.10.2020. The Borrowers/ Co- Borrowers/Guarantor/Security Provider mentioned hereinabove in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the said property and any dealings with the said property will be subject to the charge of MFSPL for an amount of Rs. 4,48,86,515/- (Indian Rupee Four Crores Forty Eight Lakhs Eighty Six Thousand Five Hundred and Fifteen Only) payable and due as on 31.07.2020 which is excluding further interest at contractual rates on the aforesaid amount, incidental expenses, cost, charges, etc. incurred and accruing thereon on daily basis.

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Scheduled Immovable Property Property No. 1: Owner Mrs. Suman Gupta (Reg. in Book 1, Volume No 3904, Pg. 13

to 68 being no. 4477 dated 26.04.2010). All right, title, interest present and future of the Mortgagor over/ in respect of all those part and parcel of land admeasuring approximately 775 Sq. Yard/ 647.9 Sq. Mtr. Part of Khasra No. 214, 220/2 & 221 situated at village Asrafpur Jalal, pargana & Tehsil Kale, within the registration Distt. Office Aligarh, Uttar Pradesh. TOGETHER WITH all buildings, constructions and structures thereon and

structures/constructions of every description which are erected/ constructed or to be erected/constructed, standing or attached it shall at any time hereafter during the continuance of the security hereby constituted be erected and standing or attached to the aforesaid lands and premises or any part thereof and all furniture, fixture, fitting and all trees, fences, hedges, ditches, ways, sewerages, drains, water, water courses, liberties, privileges, easements and appurtenant whatsoever to the aforesaid lands or any part thereof belonging to or in anywise appertaining or usually held, occupied, enjoyed therewith or reputed to belong or be appurtenant whether thereto or any part thereof whether presently in existence or in the future belonging to or in any way appurtenant thereto bounded as East :Plot of Smt. Suman Gupta after 151 feet, 3inch, West :Plot after 141 feet, North :30 Feet, road after 47 feet 7 inch South: 10 ft. Gali after 47 feet 7 inch.

 Property No.2: Owner Vinod Kumar Gupta (Reg. in Book 1, Volume No 3904, Pg. 69) to 128 being no. 4478 dated 26.04.2010). All right, title, interest present and future of the Mortgagor over/ in respect of all those part and parcel of land admeasuring approximately 775 Sq. Yard/ 647.9 Sq. Mtr. Part of Khasra No. 214, 220/2 & 221 situated at village Asrafpur Jalal, pargana & Tehsil Kale, within the registration Distt Office Aligarh, Uttar Pradesh

TOGETHER WITH all buildings, constructions and structures thereon and structures/constructions of every description which are erected/ constructed or to be erected/constructed, standing or attached or shall at any time hereafter during the continuance of the security hereby constituted be erected and standing or attached to the aforesaid lands and premises or any part thereof and all furniture, fixture, fitting and all trees, fences, hedges, ditches, ways, sewerages, drains, water, water courses, liberties, privileges, easements and appurtenant whatsoever to the aforesaid lands or any part thereof belonging to or in anywise appertaining or usually held, occupied, enjoyed therewith or reputed to belong or be appurtenant whether thereto or any part thereof whether presently in existence or in the future belonging to or in any way appurtenant thereto bounded as East: Plot of Smt. Tulsi Varshney, West: Plot of Vinod Kumar Gupta, North: 30 ft. road, South: 10 ft. Gali

 Property No. 3: Owner Vinod Kumar Gupta (Reg. in Book 1, Volume No 2283, Pg. 03 to 04 being Silsila no. 4710 dated 04.08.1987). All right, title, interest present and future of the Mortgagor over/ in respect of all those part and parcel of land admeasuring approximately 240 Sq. Yard/ 200 Sq. Mtr. Property bearing no. 8/45, New No. 8/66, situated at Ghudiabagh, Aligarh, within the registration Distt. Of Aligarh, Uttar Pradesh. TOGETHER WITH all buildings, constructions and structures thereon and structures/constructions of every description which are erected/ constructed or to be erected/constructed, standing or attached or shall at any time hereafter during the continuance of the security hereby constituted be erected and standing or attached to the aforesaid lands and premises or any part thereof and all furniture, fixture, fitting and all trees, fences, hedges, ditches, ways, sewerages, drains, water, water courses, liberties, privileges, easements and appurtenant whatsoever to the aforesaid lands or any part thereof belonging to or in anywise appertaining or usually held, occupied, enjoyed

North: 18feet wide road private, South: Plot Shri Pradeep Kumar. iv. Property No. 4: Owner Mr. Sushil Kumar and Mrs. Anita Varshney (Reg. in Book 1, Volume No 3250, Pg. 433 to 438 being no. 10844710 dated 22.02.2002). All right, title, interest present and future of the Mortgagor over/ in respect of all those part and parcel of land admeasuring approximately 300 Sq. Yard/ 250.8 Sq. Mtr. Part of Minzumla Khasra No. 1453. Situated at Mauza/ Mohalla- Kasba Kale-II, Tehsil Kale.

Niranjanpuri within the registration Distt. Of Aligarh, Uttar Pradesh.

therewith or reputed to belong or be appurtenant whether thereto or any part thereof

whether presently in existence or in the future belonging to or in any way appurtenant

thereto bounded as East: Plot of Smt. Basanti Devi, West: Plot of Shri Pramod Kumar,

TOGETHER WITH all buildings, constructions and structures thereon and structures/constructions of every description which are erected/ constructed or to be erected/constructed, standing or attached or shall at any time hereafter during the continuance of the security hereby constituted be erected and standing or attached to the aforesaid lands and premises or any part thereof and all furniture, fixture, fitting and all trees, fences, hedges, ditches, ways, sewerages, drains, water, water courses, liberties, privileges, easements and appurtenant whatsoever to the aforesaid lands or any part thereof belonging to or in anywise appertaining or usually held, occupied, enjoyed therewith or reputed to belong or be appurtenant whether thereto or any part thereof whether presently in existence or in the future belonging to or in any way appurtenant thereto bounded as East: 25ft. wide Road, West: Plot of Smt. Kanta Singh and Rajiv Kumar, North: 25FT, wide road, South: Plot of Navneet.

Date of Demand Notice: 19.08.2020 Date of Possession Notice: 23.10.2020 Date of Affixation of Possession Notice: 28.10.2020

For Moneywise Financial Services Private Limited

financialexp.epa.in

Jitendra Kumar

(Authorized Officer)

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED (A SCHEDULED COMMERCIAL BANK) Regd. Office :- 19-A, Dhuleswar Garden, Ajmer Road, Jaipur-302001, CIN L36911RJ1996PLC011381

APPENDIX IV [SEE RULE 8(I) POSSESSION NOTICE] Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank) under the "Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act, 2002 (54 of 2002)] and in exercise of Powers conferred under Section 13 (12) read with [rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice dated 19-Dec-19 Calling upon the Borrower SANJIV ANAND (Borrower & Mortgagor), SMT. NIDHI ANAND (Co-Borrower) (Loan Account No. (9001060116252912) to repay the amount mentioned in the notice being Rs.2344886/- (Rs. Twenty Three Lac Forty Four Thousand Eight Hundred Eighty

Six only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower/ mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sub-section (4) of section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this the 27 Day of Oct. of the Year 2020.

The borrower/ mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank) for an amount of Rs.2344886/- (Rs. Twenty Three Lac Forty Four Thousand Eight Hundred Eighty Six only) as on 18-Dec-2019 and interest and expenses thereon until full payment.

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES

All that part and parcel of residential / commercial property Land/Building/Structure and fixtures situated at Khasra No 1010 560, Plot No P 164, Abadi Of Gali No 7 Bihari Colony, Vill.-Chandrawali Alias Shahdara, Delhi. Admeasuring 86.95 Sq. Mtr. Owned by SANJIV ANAND, Which is having four boundaries :-OTHER PROPERTY WEST OTHER PROPERTY NORTH: OTHER PROPERTY SOUTH : GALI 15 FT

Change in Fund Management Responsibilities

Place: Mumbai

No.: 35/2020-21

Date : October 30, 2020

Date : 27-Oct-20 **Authorised Officer** Place : Delhi Au Small Finance Bank Limited

PUBLIC NOTICE

carē Plot No. 2, Community Center, Along Road No. 44 Pitampura, Delhi - 110034. Phone No: 011-47527700 Website: www.agarwalduplex.net To whomsoever it may concern

Complete Address of the Branch Office

Care Health Insurance Limited (Formerly Religare Health Insurance Co. Ltd.), B-85, Sector-2, Noida-201301 (UP)

For any further details please contact: Mr. Sumit Verma

Contact No. 0120-6219000 Care Health Insurance Limited (Formerly Religare Health Insurance Co. Ltd.) Regd. Office: 5° Floor, 19 Chawla House, Nehru Place, New Delhi-110019

CIN - U66000DL2007PLC161503 Insurance is a subject matter of solicitation. UAN:20104252 (IRDA Regd. No.148)

AGARWAL DUPLEX BOARD MILLS LIMITED CIN: L99999DL1984PLC019052 Regd. Office: 217, Agarwal Prestige Mall,

of SEBI (Listing Obligations and Disclosures NOTICE Requirements) Regulations, 2015, that the

meeting of the Board of Directors is scheduled to Notice is hereby given that pursuant to Regulation be held on Friday, 6th day of November, 2020 at 29 read with 47 of the SEBI (Listing Obligations 11:00 A.M. at the registered office of the Company and Disclosure Requirements) Regulations 2015. Select Citywalk, 6th Floor A-3, District Centre, meeting of Board of Directors of the Company is Saket, New Delhi-110017 to transact the following scheduled to be held on Tuesday, 3rd November,

To consider and adopt the Unaudited Financial Resultsfor the Quarterand half year ended on 30.09.2020 and if thought fit to approve the Any other matter with the permission of

Chairman

Date: 30/10/2020

Company Secretary Place: New Delhi

For AASHRIT CAPITAL LIMITED (Formerly Known as Jalan Cement Works Ltd) Lalit Sethi

AASHRIT CAPITAL LIMITED FORMERLY JALAN CEMENT WORKS LTD) Regd. Office: Select City walk, 6th Floor A-3 District Centre, Saket, New Delhi-110017 CIN:L65923DL1972PLC317436 Email Id:jalancementworklimited@gmail.com. Website:www.aashritcapital.com Notice is hereby given, pursuant to regulation 47

Regd. Office: C-139, Industrial Area, Bulandshahar Road, Ghaziabad-201009 (U.P.) Email: atmasteelsltd@rediffmail.com website: http://www.atmasteelsltd.com Tel. No. 09310506965, 9350506966 NOTICE is hereby given that a Meeting of Board of irectors of the Company is scheduled to be held on uesday, the 11th November, 2020 to consider, inter alia, discuss and approve the unaudited financial esults of the Company along with limited review

eport presented by the statutory auditor for the quarter ended 30th September, 2020 in pursuance of legulation 29, Regulation 33 and Regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said information is also available on the Website f the Company i.e. http://www.atmasteelsitd.com and also on the website of Stock Exchanges i.e. www.cse-india.com where the shares of the company are listed. For Atma Steels Limited

ATMA STEELS LIMITED

CIN: L27106UP1970PLC003353

Harbhajan Singh Date: 31st October, 2020 Managing Director Place: Ghaziabad

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED CIN: L51909DL1984PLC019485

9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi – 110006 Email ID: cs@neccgroup.com, Tel No.: 011-23517516-19 NOTICE Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby give notice that the Meeting of the Board of Directors of the Company is

scheduled to be held on Wednesday, November 11, 2020 inter-alia to consider and approve unaudited Financial Results of the Company for the second quarter ended September 30, 2020. Further, it is informed that as per Company's Code of Internal Procedures and Conduct for Regulating Monitoring and Reporting of Trading by Insiders framed pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 read with SEBI (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations 2018 as amended from time to time, the 'Trading Window' is already closed from Thursday, October , 2020. The window will be opened from the conclusion of 48 hours from the declaration of unaudited Financial Results of the Company. The period of closure of Trading Window is from Thursday, October 1, 2020 to Friday, November 13, 2020 and Trading Window will open with effect from

Saturday, November 14, 2020. The information is also available on the Website of the Company www.neccgroup.com and on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

On behalf of the Board of Directors

Date: 30.10.2020

(Sunil Kumar Jain) Chairman & Managing Director

NORTHERN RAILWAY Notice Inviting Tender (NIT)

1. TENDER NOTIFICATION Name of work: Dismantling, Shifting & Re-commissioning of 01 No. CNC Pit Wheel Lathe, Make HYT from MEMU Car Shed, SRE to MEMU Car Shed, KJGY. Tender Notice No:-13/2020-21 1.1. General:-

UMB division of northern railway invites single tender through E-tendering system from eligible agencies who fulfill qualification criteria as stipulated in tender document for "Dismantling, Shifting & Re-commissioning of 01 No. CNC Pit Wheel Lathe, Make HYT from MEMU Car Shed, SRE to MEMU Car Shed, KJGY". 1.2 The key details are as follows:

Tender No.	:	30-EL-MEMU-T-13-20-21			
Type of tender	:	Single			
Name of works		Dismantling, Shifting & Re-commissioning of 01 No. CNC Pit Wheel Lathe, Make HYT from MEMU Car Shed, SRE to MEMU Car Shed, KJGY.			
Approximate Cost	:	₹48,08,500/-			
Earnest Money	:	₹96,200/-			
Completion Period	: 04 (Four) Months from the date of issue of the acceptance.				
Validity of offer	:	45 days.			
Tender papers issued by	:	Sr.DEE/MEMU/SRE.			
Dt. of closing /opening	:	13.11.2020 at 15:00 Hrs./thereafter			
Cost of tender document	:	Free of cost.			
NOTE:- 1) The required earnest m	on	ey will only be accepted through on line payment mode			

closing date and time. Exemption from submission of Earnest Money for tenderer shall be as per Railway Board Guidelines. Manual payments through demand draft, banker cheque, deposit receipt, FDR etc

available on IREPS portal like net banking, debit card, credit card etc. up to tender

are not allowed. Offers which are not complying above will be considered invalid. 3) Tender must provide validity of the offer for 45 (forty five) days from the date of

 Public procure order 2017 issued by Rly. board vide L. No. 2015/RS(G)/779/5 Dt. 16.03.2018 shall be followed.

5) The tender can be seen or upload on web portal as under Website Portal: https://www.ireps.gov.in

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

2399/2020

PANAFIC INDUSTRIALS LIMITED CIN: L45202DL1985PLC019746

Regd. Office: 23, Ilnd Floor, North West Avenue, Club Road, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026 Website: www.panaficindustrialsItd.com E-mail: panafic.industrials@gmail.com Tel: 011-25223461

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020 (in Lakhs) Quarter Ended Year Ended **Particulars** 31-Mar-20 31-Mar-19 31-Dec-19 31-Mar-20 31-Mar-19 Unaudited Unaudited Audited Audited Revenue from operations Interest income 106.30 68.09 7.68 63.06 102.08 7.68 63.06 102.08 Total revenue from operations 106.30 68.09 OTHER INCOME 0.36 102.08 **TOTAL INCOME** 7.68 106.30 68.09 63.42 **EXPENSES** 1.50 **Finance Cost** 19.82 0.03 71.86 11.58 Impairment on financial instruments 61.39 128.51 1.90 9.86 2.02 15.72 43.94 Employee Benefits Expenses **Depreciation and Amortisation Expenses** 3.68 5.65 3.68 5.65 Other expenses 2.02 1.15 14.65 13.40 14.99 **TOTAL EXPENSES** 87.94 30.15 4.07 233.17 77.66 3.61 37.94 (169.75)24.43 Profit before exceptional items and tax 18.36 Exceptional items **Profit before tax** 3.61 24.43 18.36 37.94 (169.75)Tax expenses 6.90 Current tax 4.60 6.35 0.94 (32.56)(32.56)(1.51)Deferred tax credit/(charge) PROFIT FOR THE PERIOD (A) 46.32 31.59 2.67 19.05 (137.19)OTHER COMPREHENSIVE INCOME Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss Items that will be reclassified subsequently to profit or loss OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD (B) TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD (A+B) 2.67 (137.19)19.05 46.32 31.59 821.25 821.25 81.25 821.25 Paid up Equity Share Capital (Face value Re. 1 per share) 821.25 Other Equity Earnings per equity share (Face value of Re. 1 each) Basic (in Rs.) 0.00

Diluted (in Rs.)					0.00	0.05	0.00	0.	00	0.00	
	S	STANDALONE	BALANCE S	SHEE	T AS AT 31st	March, 2020			(man)	. 1 -1-1-	
0			7.1		Audited		(in Lakh				
	Statement of Assets and	Audited As at	Audited As at		Statement of Assets and			As at 31st March, 2020		As at	
Liabilities		31st March, 2020	31st March, 2019		Liab	31st					
Α	ASSETS			1 1	LIABILITIE LIABILITIE: Financial lia	-					
1	Financial assets				- Trade paya			-		-	
	Cash and cash equivalents	5.52	67.64			ing dues of micrond small enterpris		_		_	
	Loans	1,671.18	1,253.80			iding dues of	CS			_	
	Other financial assets	2.39	-			ner than micro					
	Total - Financial assets	1,679.09	1,321.44		enterprises enterprises	and small		1.93		1.11	
					Enterprises			919.71	3	95.19	
2	Non-financial assets					ncial liabilities ancial liabilitie		921.64	3	- 96.30	
	Current tax assets (net)	5.39	7.28		Non financia		3	321.04	3	30.30	
	Deferred tax assets (net)	36.23	3.66			liabilities(net)				-	
	Property, plant and equipment	6.88	10.56			inancial liabilition financial liabiliti		6.05 6.05		-	
	Other non- financial assets	10.00	0.46	2							
	Total - Non financial assets	58.49	21.96		Equity share Other equity	•		821.25 (11.36)		21.25 25.84	
					Total - Equity			809.89		47.09	
	TOTAL - ASSETS	1,737.58	1,343.40			ABILITIES AN		,737.58		43.40	

0.00

0.05

0.00

0.00

1. The Financial Results for the Quarter/Year ended 31.03.2020 were approved and adopted in the meeting of Board of Directors held on 30th October, 2020

This statement has been prepared in accordance with the Company's (Indian Accounting Standards), Rules, 2015 (IND AS), prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and the recognised accounting practices and policies to the extent applicable company has for the 1st time adopted Ind-AS.

Segment reporting is not applicable as the company activity falls within a single buisness segment. Previous period's figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD 1/CIR/P/2020/84 dated May 20, 2020, on the disclosure of impact of COVID-

Place: New Delhi

Date: October 30, 2020

19 on the Company: COVID-19 has hit both organized and un-organized sectors and the Indian economy is projected to slow down in current financial year. Due to mass lockdown restrictions and unexpected factors, the Company's business may also be affected in short to medium term.

6. The above results are available on the website of Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com & on company website at www.panafic.industrials@gmail.com For and on behalf of Board of Directors of

Sarita Gupta

Panafic Industrials Limited

Managing Director

DIN: 00113099

Corporate Identity Number: U67100MH2007PLC174759

Regd. Off: Edelweiss House, Off. C.S.T. Road, Kalina, Mumbai - 400 098 Tel: +91-22-4088 6090

Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited

Fax: +91-22-4019 4900 Website: www.edelweissarc.in E-mail: earc.cs@edelweissfin.com

Statement of Standalone Financial Results for the half year ended September 30, 2020 Regulation 52 (8) read with Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

		Half Yea	Year Ended	
	Particulars	September 30, 2020 (Unaudited)	September 30, 2019 (Unaudited)	March 31, 2020 (Audited
1	Total income from Operations	4,278.14	5,549.50	11,660.45
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,175.54	2,740.04	3,486.0
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,175.54	2,740.04	3,486.07
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	861.43	1,777.74	3,015.46
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	861.43	1,777.74	3,014.74
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- each)	2,105.26	2,105.26	2,105.26
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	18,788.24	16,691.42	17,926.83
8	Net worth ¹	21,225.50	19,128.68	20,364.0
9	Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt	41,919.99	47,234.00	43,749.5
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	
11	Debt Equity Ratio ²	1.97	2.47	2.1
12	Earnings Per Share (₹) (Face Value of ₹ 10/- each)			
	- Basic (Not annualised)	4.09	8.44	14.32
	- Diluted (Not annualised)	3.27	6.76	11.46
13	Capital Redemption Reserve	-	-	
14	Debenture Redemption Reserve	1,341.57	3,377.19	1,341.57
15	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ³	0.58	0.36	0.86
16	Interest Service Coverage Ratio (ISCR) 4	1.44	2.05	1.4

²Debt-equity Ratio = (Debt securities + Borrowings (other than debt securities) + Deposits) / Net Worth ³DSCR = Profit before interest and tax / (Interest expense + Principal Repayment in next 12 months) 4ISCR = Profit before interest and tax / Interest expense

The above is an extract of the detailed format of half yearly financial results filed with the Stock Exchanges in accordance

Mumbai, October 29, 2020.

Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended and the relevant provision of the Companies Act, 2013, as applicable. The full format of half yearly / annual financial results are available on the websites of the BSE Limited and the Company's

with Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Accounting

For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on the the Company's website - www.edelweissarc.in.

The standalone financial results of the Company for the half year ended September 30, 2020 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on October 29,2020. The Company operates in a single reportable operating segment of distressed credit business as per the requirement of Ind AS 108 - Operating Segment.

Consequent to the outbreak of COVID – 19 pandemic, the Indian Government had announced a lockdown in March 2020. Subsequently, the lockdown has been lifted by the Government for certain activities in a phased manner outside specific containment zones. The impact of COVID – 19, including changes in customer behaviour and pandemic fears, as well as restrictions on business and individual activities, has led to volatility in global and Indian financial markets and $decrease in global \ and \ local \ economic \ activity, \ which \ may \ persist \ even \ after \ the \ restrictions \ related \ to \ the \ COVID-19 \ are$ lifted, while there has been some improvement in economic activities during the current quarter. The extent to which the COVID - 19 will continue to impact Company's results, including fair value of investment, credit quality and provisions, remain uncertain and would depend upon the time taken for economic activities to fully resume and reach normal levels. The Company holds provisions as at September 30, 2020 against the potential impact of COVID – 19 based

on the information available at this point in time. The Company has assessed the impact of the COVID-19 pandemic on its liquidity and ability to repay its obligations and considering various other financial support from other banks and other agencies in determining the Company liquidity position over the next 12 months. Based on the foregoing and necessary stress tests considering various scenarios, management believes that the Company will be able to pay its obligations as and when these become due in the foreseeable future.

In assessing the fair valuation of investment, recoverability of loans and receivables, the Company has considered internal and external sources of information, including credit reports, economic forecasts and industry reports up to the date of approval of these financial results. Since, the situation continue to evolve, its effect on the operations of the Company may be different from that estimated as at the date of approval of these financial results. The Company will continue to closely monitor material changes in markets and future economic conditions.

On behalf of the Board of Directors **Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited**

Raj Kumar Bansal

Managing Director and Chief Executive Officer

For All Advertisement Booking

Call: 0120-6651214

This is to kindly inform all concerned till further notice.

that Public Notice dated 30/08/2020 issued by Care Health Insurance imited regarding closure of its branch at B-85, Sector-2, Noida-201301 (UP) should be considered invalid. The branch will continue to operate from the aforementioned premises

2020 at 11:30 A.M. at the registered office of the company inter-alia to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2020 and allotment of New shares pursuant to Sub-division of Face value of Equity Shares from Rs. 10/- each to Rs. 1/- each as per Beneficiary position/Register of Members as on record date of 2nd November, 2020 and approval and authorization for issue and signing of new share certificates respectively. For this purpose the trading window for director/officer/designated employees/Promoter covered under the code of conduct for prevention of Insider Trading has been already closed with effect from 1st October 2020 till 48 hours from the conclusion of the aforesaid Board Meeting as per

Further details of this notice are available on website of the company at www.agarwalduplex.net and may also available on the Stock Exchange at www.msei.in & www.cse-india.com For Agarwal Duplex Board Mills Ltd. (Neeraj Goel)

Managing Director DIN: 00017498 Date: 26.10.2020

the duly filed letter dated 30/09/2020.

NOTICE-CUM-ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT ('SID') / KEY INFORMATION MEMORANDUM ('KIM') OF THE SCHEME OF AXIS MUTUAL FUND ('FUND')

Notice is hereby given that Mr. Hitesh Das is designated as Dedicated Fund manager for investments in Foreign Securities in the below mentioned schemes with effect from November 02, 2020:

Existing Fund Manager(s) Fund Manager(s) with effect from November 2, 2020 Name of Scheme Mr. Jinesh Gopani Mr. Jinesh Gopani and Mr. Hitesh Das (for Foreign Securities) Axis Focused 25 Fund Axis Bluechip Fund Mr. Shreyash Devalkar Mr. Shreyash Devalkar and Mr. Hitesh Das (for Foreign Securities) Axis Multicap Fund

TEL: (022) 4325-5161, FAX: (022) 4325-5199, EMAIL: customerservice@axismf.com, WEBSITE: www.axismf.com,

EASYCALL: 1800 221 322 ADDITIONAL CONTACT NUMBER: 8108622211

The relevant details of Fund Manager(s) in the section 'Who manages the Scheme' in SID and KIM of the aforementioned scheme(s) are accordingly updated.

This notice cum addendum shall form an integral part of SID & KIM of aforementioned scheme(s) of the Fund. All other terms & conditions of SID & KIM of the scheme(s) of the Fund shall remain unchanged.

> (Investment Manager to Axis Mutual Fund) Chandresh Kumar Nigam

For Axis Asset Management Company Limited

Managing Director & Chief Executive Officer

(CIN - U65991MH2009PLC189558)

Statutory Details: Axis Mutual Fund has been established as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882, sponsored by Axis Bank Ltd. (liability restricted to ₹1 Lakh). Trustee: Axis Mutual Fund Trustee Limited Investment Manager: Axis Asset Management Company Limited (the AMC) Risk Factors: Axis Bank Ltd. is not liable or responsible for any loss or shortfall resulting from the operation of the schemes. Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



संक्षिप्त समाचार.....

स्वास्थ्य अधिकारी को एपीओ किए जाने के विरोध में रैली निकाली

भरतपुर। सीएमएचओ रहे डॉ कप्तान सिंह को बिना कारण बताए एपीओं (काम से हटाए जाने) किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय जाट एकता संगठन के राष्ट्रीय महासचिव राकेश सिकरवार के नेतृत्व में गुरुवार को शहर में रैली निकाली गई। इसके साथ ही उन्हें वापस सीएमएचओ के पद पर लगाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अति. जिला कलेक्टर प्रशासन बीना महावर को ज्ञापन सौंपा। बडी संख्या में रैली में शामिल लोगों ने कहा कि वैश्विक महामारी में कप्तान सिंह ने दिन-रात एक करके ऐसी बीमारी से भरतपुर की जनता जनार्दन को अपनी बेहतर सेवाएं दी हैं, जो बहुत ही प्रशंसनीय एवं सराहनीय हैं। नमस्कार भरतपुर कोरोना अपडेट शब्द सुनते ही लोगों की सारी अफवाह दूर हो जाती थी। ऐसे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ डॉ कप्तान सिंह रात के 2 बजे तक जागकर कोरोना में सेवाएं दे रहे थे। ऐसे सीएमएचओ को एपीओ किए जाने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला दुर्भावनावस सरकार ने लिया है। बिना किसी कारण बताए उनको एपीओ कर दिया गया। इस फैसले का भरतपुर की जनता जनार्दन एवं राष्ट्रीय जाट एकता संगठन विरोध कर रहा है एवं उन्हें पूर्व की भांति सीएमएचओ के पद पर वापस लाने की मांग कर रहा है।

प्रेम प्रसंग के चलते की गयी रोजगार सहायक की हत्या

बारां। राजस्थान में बारां जिले के हरनावदाशाहजी थाना क्षेत्र में रोजगार सहायक की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जबकि एक नाबालिंग को निरुद्ध किया है। पुलिस अधीक्षक डा रवि ने इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए आज बताया कि चार वर्ष पूर्व रामस्वरुप नाबालिगा को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिस मामले में उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी, बाद में वह ढाई साल बाद जमानत पर छूट कर आया। जेल से बाहर आने के बाद रामस्वरुप लोधा ने पुनः उस लड़की से सम्पर्क करना चाहा, लेकिन लड़की ने उसे कोई तवज्जो नहीं दी। इस पर उसे शक हुआ कि वह रोजगार सहायक दौलतराम के सम्पर्क मैं है, लिहाजा उसने दौलतराम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उन्होंने बताया कि उसने लडकी की प्रोफाइल बनाकर वाटसएप पर दौलतराम से चैटिंग की और उसे झांसा देकर 22 अक्टूबर को सालर खो के जंगल में बुलाया जहां उसने साथियों की मदद से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसकी शिनाख्त छुपाने के लिये शव तेजाब से जलाने का प्रयास किया।

विधानसभा के पांचवें सत्र में लिये कोरोना से बचाव की पुख्ता व्यवस्था की गयीं

जयपुर। राजस्थान में 31 अक्टूबर से शुरु हो रहे पन्द्रहवीं राजस्थान विधानसभा के पांचवें सत्र में कोविड-19 से बचाव के लिए विधानसभा में पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। राजस्थान विधान सभा <mark>के सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने आज बताया कि इस सत्र के दौरान</mark> दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश पत्र नहीं बनाये जायेंगे। प्रवेश द्वारों पर हाथ धोने और सेनेटाइज किये जाने वाली मशीनें पर्याप्त संख्या में लगाई गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए अप<mark>नाई</mark> जाने वाली सभी सावधानियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा में संचालित एलोपैथिक होम्योपैथिक, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्सकों और औषधियों की व्यवस्था कोविड-19 के दृष्टिगत पर्याप्त की गई है। सदन की बैठकों के दौरान कोविड-19 सम्बन्धी सुरक्षात्मक व्यवस्थायें विधान सभा सचिवालय द्वारा सुनिश्चित की गई है। विधायकों के लिए कोविड जांच की व्यवस्था 30 अक्टबर से सत्र समाप्ति तक विधान सभा सचिवालय के चिकित्सालय में की गई है।

धर्मपरिवर्तन के मामले में सात दिन में काररवाई नहीं तो आंदोलन करेंगे : आहुजा

<mark>अलवर।</mark>राजस्थान में अलवर के बड़ौदा मेव पुलिस <mark>थाना क्षेत्र के</mark> भिवाड़ी गांव में धर्म परिवर्तन के मामला सामने आने के बाद रामगढ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि अगर सात दिन में काररवाई नहीं की गयी तो बड़ा आंदोलन किया जायेगा। श्री आहुजा आज भयाडी गांव पहुंचे और ग्रामीणों से सारे घटनाऋम के बारे में <mark>जानकारी ली। उन्होंने</mark> पीड़ित परिवार से फोन पर बात करके सांत्वना दी कि पूरा हिंदू समाज तुम्हारे साथ है। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे मेवात क्षेत्र में हरियाणा में राजस्थान में हिंदू समाज और बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। लव जिहाद के नाम पर हिंदू बहन बेटियों की हत्यायें की जा रहीं हैं।श्री आहूजा ने कहा कि फरीदाबाद में जिस तरीके से निकिता की हत्या की गई है वह परिवार सीधा कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। उसी तरह रामगढ़ में भी भयाडी गांव के मैम चंद जाटव के साथ भी प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया।

रोजगार सहायक की हत्या की गुत्थी सुलझी, चार हिरासत में

बारां। राजस्थान में बारां जिले के हरनावदाशाहजी थाना क्षेत्र में पुलिस ने रोजगार सहायक की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए वारदात के सूत्रधार सहित चार लोगों को हिरासत में लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक डा. रवि ने आज बताया कि 23 अक्टूबर को भरोसी बाई ने अपने पति दौलतराम लोधा जो रोजगार सहायक का कार्य करता था, की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस पर मामला दर्ज करके तलाश शुरु की गयी तो अगले ही दिन दौलतराम का शव सालर खोह के जंगल में मिला। मृतक दौलतराम के शरीर को जलाने के लिये उसके शरीर पर तेजाब डालकर पहचान मिटाने एवं सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने बताया कि मामले की तफ्तीश के लिये पुलिस दल गठित किया गया। दल ने गहन जांच पड़ताल करके हत्या की गुत्थी सुलझा ली और रामस्वरूप, नवल, विशाल, नरेश एवं एक नाबालिंग को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है।

राजस्थान मे कोरोना के 1790 नये मामले, 11 लोगों की मौत

जयपुर। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के 1790 नए मामले सामने आने के बाद आज इसकी संख्या बढ़कर एक लाख 93 हजार 419 हो गई तथा 11 संक्रमितों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1888 पहुंच गया। चिकित्सा निदेशालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मामले राजधानी जयपुर में 335, जोधपुर में 275, बीकानेर में 251 सामने आये। इसके अलावासीकर में 89, श्रीगंगानगर में 72, अलवर में 91, भरतपुर में51, उदयपुर में 49, अजमेर में 63, जालोर में 42, बाड़मेर में 32, भरतपुर में 51, भीलवाड़ा में 37, चुरू में 28, दौसा में 25, झुंझुनू में 43, पाली में 41, नागौर में 52, राजसमंद में 16, सिरोही में 29, टोंक में 16, बांसवाड़ा में आठ, बारां में चार, धौलपुर में चार, डूंगरपुर में सात, सवाई माधोपुर में छह नये मामले सामने आये है।

'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान को और प्रभावी बनाएं ...

मिलावट देश के लिए गंभीर चिंता का विषय : गहलोत

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए एक बार फिर 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान शुरू किया है। यह काम सिर्फ कुछ दिन तक ही सीमित न रहे, पूरी प्राथमिकता के साथ इसे निरन्तर जारी रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान की सफलता के लिए गठित राज्य स्तरीय कोर ग्रुप जिलों में की जा रही कार्रवाई तथा अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करे। श्री गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर 'शुद्ध के लिए युद्ध' तथा कोविड-19 की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति खाद्य सामग्री में मिलावट की सूचना केन्द्रीयकृत हेल्पलाइन नम्बर-181 तथा जिला स्तर पर



जिला कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारियों को दे सकता है। उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि हमारी पिछली सरकार के समय मौके पर ही मिलावट की जांच के लिए शुरू की गई मोबाइल लैब का उपयोग इस अभियान में प्रभावी रूप से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में

कोरोना के कुशल प्रबंधन के कारण विगत दिनों में पॉजिटिव केसों की संख्या एवं मृत्यु दर में कमी आई है। इन प्रयासों को लगातार जारी रखा जाए। साथ ही, आगामी दिनों में संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए मेडिकल इंफास्ट्रक्वर को लगातार मजबूत बनाएं। उन्होंने अपील की है कि आतिशबाजी से निकले धुएं

के कारण कोविड मरीजों एवं हृदय रोग, श्वास रोग आदि के रोगियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ?से में, दीवाली के अवसर पर लोग आतिशबाजी से बचें। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा श्री अखिल अरोरा ने बताया कि संभागीय मुख्यालयों के मुख्य कोविड अस्पतालों में आईसीय सुविधाओं को अपग्रेड सुविधाओं को भी बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं। आगामी दिनों में कोविड संक्रमण आशंका को देखते हुए इन्टेंसिव केयर एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। आरयूएचएस अस्पताल में 5 नवम्बर से आईसीयू के 35 और बैड ऑपरेशनल हो जाएंगे।

नौनेरा के मुख्य रास्ते में जलभराव होने से लोग परेशान

बसेडी। उपखंड के नौनेरा गांव में जलभराव के कारण लोगो की दुविधा बढ गई है। आलम यह हैं कि जलभराव के कारण गांव का मुख्य रास्ता बंद हो गया है जिससे राहगीरों का निकलने मे मुसीबतों का सामना करना पड रहा है वही गांव मे मच्छरों का प्रकोप बढने से बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है।

ग्रामीणों ने बताया कि कई बार पंचायत प्रशासन व उपखंड प्रशासन के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया जा चुका है लेकिन ग्रामीणो की समस्या पर किसी अधिकारी ने कोई ध्यान नही.दिया है जिसके कारण लोगो को मुसीबतों का सामना करना पड रहा है। जबिक ग्रामीणो ने गांव मे बीमारी फैलने की आशंका जताई है। ग्रामीणो ने बताया कि गांव मे पानी की निकासी का कोई प्रबंध नही है।

जयपुर में नवंबर के पहले सप्ताह से ठंड चमकेगी, सर्दी १५ दिन ज्यादा चलेगी

जयपुर⁄एजेंसी।

जयपुर। गुलाबी नगरी में गुलाबी ठंड पड़ने लगी है लेकिन नवंबर के पहले सप्ताह से ठंड अपना असर दिखाएगी। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना, ला नीना प्रभाव दिसंबर में असर दिखाएगा मानसून विदाई के बाद प्रदेश में अब सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। बीते एक सप्ताह में कई शहरों का न्यूनतम तापमान 4 से 7 डिग्री तक गिरा है। मौसम विभाग ने नवंबर के पहले सप्ताह में सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है जबकि दिसम्बर में कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान जताया है। ला नीना का प्रभाव दिसंबर से दिखने लगेगा। एल निनो और ला एल नीनो-दक्षिणी ऑसीलेशन चऋ के हिस्से होते हैं। प्रशांत महासागर में वर्तमान में तापमान 0.5 डिग्री से भी नीचे है,

यह भी कड़ाके की सर्दी का संकेत है। प्रदेश के शहरों की बात करें तो बीते दिनों सबसे अधिक ठंडा इलाका चुरू रहा यहां का न्युनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर में भी तापमान



गिरने से लोगों को सुबह-शाम ठंड का अहसास होने लगा है। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि नवंबर के पहले सप्ताह तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। इससे चुरू, पिलानी सहित कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच सकता है।

गुर्जरों ने सरकार का वार्ता प्रस्ताव ठुकराया, एक नवंबर को भरतपुर पहुंचने का किया आव्हान

जयपुर⁄एजेंसी।

एमबीसी को बैकलॉग व प्रिक्रियाधीन भर्तियों में पूरे पांच प्रतिशत आरक्षण सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक नवम्बर से प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन को लेकर सरकार की हार्ट-बीट बढ़ गई है। गुर्जरों ने अब सरकार का वार्ता प्रस्ताव ठुकरा दिया है और आंदोलन की राह थाम ली है। उधर, भरतपुर जिला कलेक्टर ने अगले आदेश तक जिले के सभी कर्मचारियों-अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। करौली जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने गुरुवार को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के किरोड़ी सिंह बैंसला एवं विजय बैंसला सहित अन्य सदस्यों से मिलकर उन्हें राज्य सराकार द्वारा निर्धारित की गई



ने इस आमंत्रण को अस्वीकार कर बद्री गुर्जर की कुछ वर्षों बाद मृत्यु दिया। हालांकि सरकार ने गुर्जर हो गई थी। इनके परिवार को आरक्षण संबंधी मंत्रीमण्डलीय सामाजिक स्तर पर सहायता समिति की बैठक में तीन प्रमुख जटाकर यवा एवं खेल मामलात मांगों पर सकारात्मक फैसला राज्यमंत्री अशोक चांदना द्वारा 5 किया है। गुर्जर आन्दोलन के लाख रुपए प्रत्येक परिवार को

अति पिछडा वर्ग के जिन 12.2 अभ्यर्थियों का परिवीक्षाकाल पूर्ण हो चुका है, उन सभी अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षावधि पूर्ण होने पर रेगुलर पे स्केल दी जाएगी। राज्य सरकार (कार्मिक

सहायता के रूप में दिए जाएंगे

विभाग) द्वारा अति पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पूर्व में भारत सरकार को 22 फरवरी 2019 एवं 21 अक्टूबर 2020 को लिखा गया है। इसके लिए पुन: भारत सरकार को उक्त आरक्षण प्रावधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तत्काल लिखा जाएगा। आरक्षण को केन्द्र की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे छह सटोरियों को जयपुर पुलिस ने दबोचा

५८ मोबाइल, ७४ हजार नकद और २ लैपटॉप सहित अन्य सामान बरामद

जयपुर/एजेंसी। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने देर रात कार्रवाई करते हुए विश्वकर्मा थाना क्षेत्र से आईपीएल में सट्टा लगाते छह सटोरियों को दबोचा है। इन सटोरिया के पास से पुलिस ने 58 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, एलसीडी टीवी और हिसाब की पर्चियां व नोटबुक बरामद की हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजयपाल लाम्बा के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस की स्पेशल टीम ने विश्वकर्मा क्षेत्र में अक्षयपुरा स्थित फार्महाउस पर दबिश दी और वहां



74 हजार रुपए की नकद के साथ से मुकेश कुमार निवासी सुजानगढ चूरू, मोहित कुमार निवासी चंडीगढ़ के अलावा पश्चिम बंगाल के रहने वाले फिरोज अंसारी, सुजल कुमार, प्रमोद बैद और रमेश नाम के व्यक्ति को पकडा।

सूत्रों का कहना है कि ये मुखबिर से मिली सूचना के बाद फार्महाउस मुकेश ने किराए पर ले रखा था। इस कार्रवाई में बरामद लैपटॉप व अन्य सामाग्री से मिली

जा रहा है कि सट्टा खिलाने वाली इस गैंग के तार राजस्थान के बाहर से भी जुड़े हो सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी जयपुर में पिछले कुछ दिनों पहले कोतवाली थाना इलाके में सटोरियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। उस दौरान 4 बड़े नामी सटोरियों को पकड़ा था और कार्रवाई में बडी मात्रा में 4.19 करोड़ रुपए

विस. अध्यक्ष ने विधान सभा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया

जयप्र। राजस्थान विधान सभा शुक्रवार को यहां विधानसभा भवन व सदन की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। डॉ. जोशी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिये। पन्द्रहवी राजस्थान विधान सभा के पंचम सत्र की बैठक पुनरू 31 अक्टूबर से प्रातरू 11.00 बजे से होगी। इसके मद्देनजर विधान सभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने सदन में की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधान सभा भवन व सदन में कोविड-19 से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों को ध्यान में रखते हुए पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है। इस मोंके पर विधानसभा सचिव श्री प्रमिल कुमार माथुर सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थें।

संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प : सुभाष

कहा कि प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सा एवं जनसम्पर्क राज्य मंत्री शुऋवार को दौसा जिला मुख्यालय पर नव ऋमोन्नत राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही व्यक्ति, समाज, व क्षेत्र का विकास संभव है। क्षेत्र के लोगों को जिला

मुख्यालय पर ही संस्कृत मे उच्च प्रदेश के संस्कृत, एवं तकनीकी शिक्षा लेने की सुविधा मिले इसके शिक्षा, राज्य मंत्री डॉ. सभाष गर्ग ने हिए शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय को आचार्य में ऋमोन्नत किया गया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति व समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में आगे आकर अपना व क्षेत्र का विकास में अपना योगदान देवें।

संस्कृत एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रत्येक जिला मख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा के साथ ही दोसा में भी मेडिकल खोलने की घोषणा कर चुके हैं।

हाईस्ट्रीट फिलाटेक्स लिमिटेडे

दूरभाषः 0141-2214074, 2211658 फैक्ट्री : एफ-86, हीरावाला इंडस्ट्रीयल एरिया, कानोता, जिला-जयपुर-302012, राज वेबसाईट : www.highstreetfilatex.in ई—मेल : highstreet.filatex@gmail.com 30.09.2020 को समाप्त तिमाही/अर्द्धवार्षिक के लिए

अनांके**क्षात वित्तीय परिणाम का सार** (रु. लाखों में)

				(,				
क्र. सं	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त अर्द्धवार्षिक	समाप्त तिमाही				
		30.09.20	30.09.20	30.09.19				
		अनांकेक्षित	अनांकेक्षित	अनांकेक्षित				
1.	प्रचालनों से कुल आय	1.58	1.58	12.29				
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, विशिष्ट एवं / अथवा असाधारण वस्तओं से पूर्व)	(4.32)	(10.57)	(20.53)				
3.	अवधि के लिए कर पूर्व निवल लाम/ (हानि) (कर, असाधारण एवं/अथवा असाधारण वस्तओं के पश्चात)	(4.32)	(10.57)	(20.53)				
4.	अवधि के लिए कर पश्चात निवल लाभ /(हानि) (कर, असाधारण एवं/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	(4.32)	(10.57)	(20.53)				
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर पश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)	(4.32)	(10.57)	(20.53)				
6.	समता अंश पूंजी	64.70	64.70	64.70				
7.	रिजर्व (गत वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	(320.08)						
8.	प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 10/— प्रत्येक) (सतत एवं असतत परिचालनों से)							
	मूल :	(0.67)	(1.63)	(3.17)				
	तरल :	(0.67)	(1.63)	(3.17)				
٠١.) and a farm of trade in art and are arrived from a cost of firm							

1) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण दायित्व अवं प्रकटन अपेक्षा) विनियमन. 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही के वित्तीय परिणामो के विस्तत प्रारूप का सार है. समाप्त तिमाही / अद्धवार्षिक के वित्तीय परिणामो का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कंपनी

2) असाधारण और / असाधारण वस्तुओं को Ind-AS नियमों /AS नियमों के अनुसार लाभ और

पेट्रोलियम रिफायनरी की इकाइयों के आधारभूत संरचना के अधिकांष कार्य प्रगति पर, सितंबर तक साढ़े चार हजार करोड़ व्यय : अग्रवाल जयपुर/एजेंसी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव माइन्स एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि एसपीसीएल राजस्थान रिफायनरी (एचआरआरएल) की इकाइयों में आधारभूत संरचनाओं के काम में तेजी आई है वहीं रिफायनरी परियोजना में 4654 करोड़ रु. के काम पूरे हो चुके हैं। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि रिफायनरी के मुख्य वेयर हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ ही रिफायनरी राजस्थान सरकार का ड्रीम प्रोजेष्ठट है और यही कारण है कि राज्य सरकार और रिफायनरी प्रबंधन का संयुक्त प्रयास है कि रिफायनरी परियोजना का कार्य निर्धारित समय सीमा अक्टूबर, 22 तक पूरा कर मार्च, 23 तक व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हो सकेगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के कारण प्रभावित कार्य को तय



समय सीमा में पूरा करने की रिफायनरी प्रबंधन द्वारा रणनीति तय की गई है एसीएस माइन्स एवं पेट्रोलियम ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बाड़मेर रिफायनरी एसपीसीएल राजस्थान रिफायनरी की बोर्ड मीटिंग में रिफायनरी परियोजना की प्रगति और रोडमेप के अनुसार तय समय सीमा में कार्य पूरा कराने

उन्होंने बताया कि एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के इस संयुक्त उद्यम की खास बात यह है कि यहां रिफायनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स दोनों एकीकृत रुप से बन रहे हैं। रिफायनरी में बीएस अप मानक के उत्पाद का उत्पादन होगा। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि

रिफायनरी में 9 रिफायनरी व 4 पेट्रोकेमिकल सहित 13 प्रोसेस इकाइयां स्थापित होंगी जिसकी बेसिक डिजाइन इंजीनियरिंग का कार्य पूरा करा लिया गया है। रिफायनरी साइट पर ही 2095 घनमीटर के जलाषय का निर्माण हो गया है और नाचना व टाउनषीप जलाषय का काम प्रगति पर है।

/ww.highstreetfilatex.in पर उपलब्ध है। हानि के विवरण में, जो भी लागू हो, समायोजित किया गया है।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते हाईस्ट्रीट फिलाटेक्स लिमिटेड भगवान सिंह पूर्ण कालीन निदेशक

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक, **सम्पादक अमृत जैन के लिये,** यंगलीडर प्रेस से मुद्रित 2073, चाकसू का चौक, घी वालों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर से प्रकाशित। **मो. 9868155089, 9829193560 फोर नें, 0141-2570653 (RNI No. RAJHIN/200⁄4/1⁄2833)**

दिनेतंक : 30 अक्टूबर, 2020